



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34]
No. 34]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 27, 1982/माघ 7, 1903
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 27, 1982/MAGHA 7, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अभिज्ञानार्थ

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1982

का. आ. 51(अ) —प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के अंगुरोध पर 27 जनवरी, 1982 से कारबी एन सी हरल बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि असम राज्य के कारबी अंगलांग तथा उत्तरी काछार हिल्स जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ 1-30/80-आर आर बी (1)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th January, 1982

S.O. 51(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act,

1252 GI/81

1976 (21 of 1976) the Central Government on being requested so to do by State Bank of India, establishes, with effect from the 27th January, 1982 a Regional Rural Bank in the State of Assam under the name of Karbi N. C. Rural Bank which shall operate within the local limits of the districts of Karbi Anglong and North Cachar Hills in the State of Assam.

[No. F. 1-30/80-RRB(I)]

का.आ. 52(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कारबी एन. सी हरल बैंक के प्रायोजक भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक से परामर्श करके, कारबी अंगलांग जिले में बीफू को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर कारबी एन सी हरल बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ 1-30/80-आर आर बी. (2)]

S.O. 52(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, by which Karbi N. C. Rural Bank has been sponsored, specifies Diphu in Karbi Anglong district as the place where Karbi N. C Rural Bank shall have its head office

[No. F. 1-30/80-RRB(II)]

का. आ. 53(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (अ) के उपखण्ड (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए, कारबी एन. सी. रूरल बैंक, दीफू की प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) में अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एफ 1-30/80-आर और पी. (3)]

वी.पी. साहनी, संयुक्त सचिव

S.O. 53(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Karbi N. C. Rural Bank, Diphu being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-30/80-RRB(III)]

V. P. SAWHNEY, Jt Secy

भारत रिजर्व बैंक

ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष

अधिसूचना

संख्या, 27 जनवरी, 1982

का.आ. 54(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क)

के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निवेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्न-लिखित बैंक को समाविष्ट किया जाय, अर्थात् —

“कारबी एन. सी. रूरल बैंक, दीफू (असम)”

[आर पी.सी.सी. संख्या 223/आई एन सी.एल /311-81]

एम.वी. हाटे, कार्यपालक निदेश

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning and Credit Cell)

NOTIFICATION

Bombay, the 27th January, 1982

S.O. 54(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Karbi N. C. Rural Bank, Diphu (Assam)”.

[RPCC NO. 223/INCL/311-81]

M. V. HATE, Executive Director.